

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक 02.09.21\***

**\*थाना कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी\*,**

**\*शातिर वाहन चोर, चोरी की स्कूटी की नम्बर प्लेट बदलकर पत्रकार लिखवाकर मय स्कूटी एवं\***

**\*01 अदद तमचां 315 बोर मय 02 अदद कारतूस जिन्दा सहित गिरफ्तार\* ।**

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में सक्रिय अपराधियो/टांपटेन तथा विभिन्न प्रकार के अपराध कारित करने वाले अपराधियो के विरुद्ध श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन एवं श्री प्रवीण कुमार यादव क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण तथा हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चौक के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के दौरान कोतवाली चौक पुलिस दिनांक 01.09.2021 की रात्रि में अपराधियों की धर पकड हेतु क्षेत्र में मामूर थी कि मुखबिर की सूचना पर बरेली मोड हाइवे ओवरब्रिज के नीचे चैकिंग के दौरान **\*अभियुक्त मुवीन उर्फ मोनू S/O मुइनुइदीन नि0 मो0 मेहमान शाह थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर\*** एक स्कूटी जिसकी अगली नम्बर प्लेट पर मोटे मोटे अक्षरो में पत्रकार लिखा है तथा पीछे टैम्परेरी नम्बर शाहजहाँपुर UP27Z4832 अंकित था तलाशी लेने पर 01 तमचा 315 बोर मय 02 कारतूस भी बरामद हुए, पूछताछ करने पर माफी मांगते हुए बताया कि मैं अपनी बहन के पास दिल्ली में चप्पलो की फड लगाने गया था तभी यह स्कूटी मैंने इसी साल जनवरी में दिल्ली से चोरी की थी मेरा बहनोई सलमान फरीदपुर में पत्रकार है उसने मेरा भी बीबी न्यूज का एक आई कार्ड बनवा दिया था इसीलिए मैंने स्कूटी पर आगे पत्रकार लिखवा दिया था क्योकि पत्रकार को देखकर चैकिंग में पुलिस नहीं रोकती है स्कूटी की असली नम्बर प्लेट उतार कर दूसरी नम्बर प्लेट लगवा दी थी इस सम्बन्ध में आनलाईन स्कूटी के बारे में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि यह स्कूटी दिनांक 15.01.2021 को मंडावली दिल्ली से चोरी हुई थी इस सम्बन्ध में थाना **CRIME BRANCH** दिल्ली के थाना ई- पुलिस **STATION** मंडावली ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में **FIR NO 1356/21** धारा 379 IPC दिनांक 15/01/2021 को पंजीकृत है इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 462/21 धारा 411/420 भादवि व मु0अ0सं0 463/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया है विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा ।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण\* :-**

1. मुवीन उर्फ मोनू S/O मुइनुइदीन नि० मो० मेहमान शाह थाना कोतवाली जनपद शाह०

**\*बरामदगी का विवरण\*:-**

1. एक स्कूटी DL5SCL7297 चैचिस नं० ME4JF913BLD027563 सम्बन्धित मु०अ०सं० 1356/21 धारा 379 भादवि थाना मंडावली ईस्ट दिल्ली ।
2. 02 नम्बर प्लेट
3. 01 तमंचा 315 बोर
4. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर
5. एक फर्जी पहचान पत्र जिस पर जिला रिपोर्टर NAME-MOBEEN SIDDIQUI ,ID NO BBN/13142/209,AREA -SHAHJHANPUR,COUNTRY-INDIA,MOBILE NO 9839804403,MEMBER SINCE-15-04-2020,EXPIRY DATE 31-12-2021

**\*आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुवीन\***

1. मु०अ०सं० 462/21 धारा 411/420 भादवि
2. मु०अ०सं० 463/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि०

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण\***

- 1.उ०नि० श्री पवन कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी अजीजगंज थाना कोतवाली शाह०पुर
- 2.उ०नि० श्री नरेशचन्द थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।
- 3.हे०का० 159 बलविन्दर सिंह थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर
- 4.का० 2280 रुस्तम थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर ।